



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श10)
(सं0 पटना 643) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-09/2007/1195—श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन, कार्यपालक अभियन्ता, सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0-डिहरी के पदस्थापन अवधि में उक्त प्रमण्डल अन्तर्गत अकोढीगोला से नोखा के बीच बक्सर शाखा नहर के 0.00 कि0मी0 से 2.92 कि0मी0 तक नहर सेवा पथ निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता की जाँच उडुनदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उक्त के क्रम में उडुनदस्ता अंचल, पटना ने अपने पत्रांक 03 दिनांक 31 जनवरी 2007 तथा पत्रांक 08, दिनांक 2 मार्च 2007 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री गुलाम रब्बानी के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1058, दिनांक 13 नवम्बर 2007 द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। उनके सेवाकाल में प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही उनके सेवाकाल में पूरी नहीं हो पाने के कारण विभागीय आदेश 136 सह पठित ज्ञापांक 741, दिनांक 29 जुलाई 2009 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत सम्पूरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 40, दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मेटल ग्रेड-II एवं III के ओभर साईज पाये जाने का आरोप किसी जाँचफल पर आधारित नहीं है एवं क्षेत्रीय गुण नियंत्रण संगठन द्वारा भी मेटल ग्रेड- II एवं III के जाँचफल पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा साथ ही कालीकरण/ कारपेंटिंग कार्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। कालीकरण कार्य की मुटार्ई 14

मि० मी० से 15 मि० मी० पाये जाने का भी जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय गुण नियंत्रण संगठन द्वारा भी कालीकरण कार्य की गुणवत्ता को संतोषप्रद पाया गया है। अतः श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवा-निवृत्त को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री गुलाम रब्बानी, कार्यपालक अभियन्ता (सेवा-निवृत्त) को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 643-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>